

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जुलाई, २०१७ माह में किये गए

महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. सहायक सचिवों (2015 बैच के आईएएस अधिकारी) का उद्घाटन सत्र दिनांक 3 जुलाई, 2017 को आयोजित हुआ था। इस अवसर पर संबोधित करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने इन आईएएस अधिकारियों को व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया। माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक) ने भी इन सहायक सचिवों को संबोधित किया।
2. 2015 बैच के सहायक सचिवों का संवादात्मक सत्र दिनांक 14.07.2017 को सीएसओआई, विनय मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। आईएसटीएम तथा एमईआईटीवाई/बैंको के विशेषज्ञों द्वारा क्रमशः "फाइल प्रबंधन प्रणाली" और "भारत में डिजिटल भुगतान" विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिए गए थे।
3. 2015 बैच के सहायक सचिवों का संवादात्मक सत्र दिनांक 21.07.2017 के विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के प्रमुखों द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक उपलब्धियों/अवसरों/भावी चुनौतियों पर प्रस्तुतीकरण दिए गए। महानिदेशक, डीजीएसएंडडी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जीईएम) द्वारा सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) पर प्रस्तुतीकरण भी दिए गए। सहायक सचिवों ने जीईएम के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाने के लिए मूल्यवान सुझाव दिए।
4. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन स्कीम के अंतर्गत नियमित पदोन्नति गैर-कार्यात्मक स्केल प्रदान करने के समय वेतन निर्धारण के लाभ के संबंध में दिनांक 04.07.2017 के का.जा.सं. 35034/3/2008-स्था.(घ) (खण्ड II) के तहत स्पष्टीकरण जारी किया गया था।
5. श्रम और रोजगार मंत्रालय के एनसीएस पोर्टल पर भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों के अंकों और स्थान (रैंकिंग) संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए दिनांक 19.07.2017 के का.जा.सं. 39020/01/2016 स्था. (ख) के तहत अनुदेश जारी किए गए।
6. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के उत्तर-पूर्व संवर्गों के अधिकारियों के लिए विशेष भत्ते तथा विशेष इयूटी भत्ते के क्रमशः 20% और 10% की संशोधित दरों पर भुगतान हेतु आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2017 के पत्र सं. 11022/1/2017-अ.भा.से.॥ के तहत जारी किए गए।

7. सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2016 के संदर्भ में, निचले पद में अगली वेतनवृद्धि की तारीख (डीएनआई) से पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के विकल्प की उपलब्धता तथा डीएनआई से वेतन निर्धारण पद्धति, यदि इसका विकल्प चुना गया हो, संबंधी अनुदेश दिनांक 27 जुलाई, 2017 के का.जा.सं. 13/02/2017-स्था. (वेतन-1) के तहत जारी किए गए हैं।
8. दिनांक 25 जुलाई, 2017 के का.जा.सं. 17014/2/2014-प्रशिक्षण (7 वां केन्द्रीय वेतन आयोग) के तहत सभी मंत्रालयों/विभागों/सीटीआई/एटीआई को सभी प्रशिक्षण संस्थाओं/अकादमियों/संस्थानों में आतिथ्य भत्ते को समाप्त करने संबंधी केन्द्र सरकार का निर्णय संप्रेषित किया गया था।
9. कर्मचारी पक्ष एनसी (जेसीएम) द्वारा 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग से संबंधित विसंगतियों को अग्रेषित करने तथा राष्ट्रीय विसंगति समिति द्वारा उनके निपटान की समय-सीमा में विस्तार करने संबंधी अनुदेश दिनांक 17.07.2017 के का.जा.सं. 11/2/2016-जेसीए के तहत जारी किए गए।
10. दिनांक 28.07.2017 के का.जा.सं. 12/3/2016-जेसीए-2 के तहत दिनांक 29.07.2017 को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राज्य विधान सभाओं में रिक्तियों को भरने के लिए उप-चुनाव के दौरान सवेतन अवकाश प्रदान करने संबंधी अनुदेश जारी किए गए।
11. चयन द्वारा भर्ती की पद्धति के माध्यम से आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के वेतन निर्धारण के संबंध में दिनांक 28.07.2017 के का.जा.सं.12/3/2017-स्था. (वेतन-1) के तहत दिशानिर्देश जारी किए गए।
12. 01 सीएसएस- सीटीपी (एल-बी) एवं 01 सीएसएसएस-सीटीपी (एल-III) कार्यक्रमों सहित आईएसटीएम में कुल 31 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 1440 थी।
13. दिनांक 06.07.2017 की अधिसूचना के तहत आईपीएस (त्रिपुरा) की संवर्ग-समीक्षा जारी की गई है।
14. इस विभाग के दिनांक 25.07.2017 के का.जा.सं. 11022/1/2017-अ.भा.से.-II के तहत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के संबंध में एचआरए और अन्य के संशोधित भत्तों संबंधी अनुदेश जारी किए गए।

15. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने क और ख सूची के विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) में 09 मामलों में नियुक्तियों का अनुमोदन किया। इसके अलावा, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की चौबीस (24) नियुक्तियों, स्वायत्त निकायों में मुख्य कार्यकारियों की छह (06) नियुक्तियों, समयपूर्व प्रत्यावर्तन के पांच (05) प्रस्तावों, मंत्रियों के निजी सचिवों की नियुक्ति के दो (02) प्रस्तावों, मंत्रियों के विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति के एक (01) प्रस्ताव, विस्तार के दो (02) प्रस्तावों, कार्यकाल कम करने के एक (01) प्रस्ताव, तथा नियुक्ति (गैर-सीएसएस) के एक (01) प्रस्ताव का ईओ (एमएम-1)- मंत्रिमंडल सचिव/एसीसी द्वारा अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा, दो (02) अधिकारियों को डीसीओ और एक (01) अधिकारी को सीवीओ के रूप में नियुक्त किया गया है तथा दस (10) अधिकारियों को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव पर प्रतिधारित किया गया है।

16. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के सहयोग से निर्माण भवन, नई दिल्ली में दिनांक 19.07.2017 को रक्तदान शिविर लगाया गया जिसमें 53 कर्मचारियों ने रक्तदान किया।